



विद्या भारती पूर्वी उ०प्र० Contact-9415888806

सरस्वतीकुञ्ज, निरालानगर, लखनऊ

E-mail-vidyabhartipurviup@gmail.com

Website-vbeastup.org

स्वामी विवेकानंद जयन्ती के अवसर पर विद्या भारती अवध प्रदेश के स्वावलंबी पूर्वछात्रों का एक दिवसीय सम्मेलन सरस्वती शिशु मन्दिर निराला नगर के माधव सभागार में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरायुक्त डॉक्टर इन्द्रजीत त्रिपाठी ने की मुख्य अतिथि संगठन मन्त्री श्री डोमेश्वर साहू थे। कार्यक्रम के संयोजक अमित कुमार अग्रवाल रहे। प्रस्ताविकी अंजनी कुमार वर्मा अध्यक्ष जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश ने की। अंजनी जी ने पूर्व छात्र सम्मेलन की आवश्यकता तथा उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व छात्र विद्यालय की अमूल्य धरोहर होते हैं संगठन एवं संस्थान के ब्रांड एंबेसडर होते हैं पूर्व छात्र अपने संस्थान को आर्थिक शैक्षिक सामाजिक और न्यायिक सहयोग कर सकते हैं। मुख्य अतिथि डोमेश्वर साहू जी ने समाज और राष्ट्र निर्माण में विद्या भारती अपने सीमित संसाधनों से किये जाने वाले योगदान की चर्चा की। इस पवित्र कार्य में पूर्व छात्रों से चतुर्दिक सहयोग की अपील की। नगरायुक्त ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सरस्वती शिशु मन्दिर शिक्षा योजना की भूरि भूरि प्रशंसा की। राष्ट्रीयता ओर राष्ट्रवाद के सुदृढीकरण के लिए इन विद्यालयों के प्रयासों की सराहना की। द्वितीय सत्र में अलग अलग जिलाशः वार्षिक कार्य योजना बनाई गई जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया। भोजन के बाद समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव लोचन त्रिपाठी चिकित्सा अधीक्षक बलरामपुर चिकित्सालय ने अपने बचपन में आचार्य परिवार के प्रयासों का स्मरण करते हुए विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की चर्चा की। भविष्य में छोटे स्तर पर ऐसे सम्मेलन आयोजित कर समाज के अन्य लोगों को भी पूर्व छात्र परिषद से जोड़कर सामाजिक जीवन में राष्ट्रीय विचारों के प्रकटीकरण करने के लिए प्रयास करने की सलाह दी। हरेन्द्र श्रीवास्तव मन्त्री भारतीय शिक्षा समिति उ.प्र.ने आभार प्रकट किया। वन्देमातरम के कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में लगभग 716 भैया बहिनों 56 आचार्य प्रधानाचार्य सहित प्रान्त के सभी पूर्ण कालिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



